HCL INFOSYSTEMS LTD.

Corporate Office: A-11, Sector 3, NOIDA 201 301, U.P., India
Tel: +91 120 2520977, 2526518, 2526519 Fax: +91 120 2523791
Registered Office: 806 Sidd harth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019. India.
Corporate Identity Number - L72200DL1986PLC023955
www.hclinfosystems.in

www.hcl.com

25th August, 2021

To

The General Manager
Department of Corporate Relations

BSE Limited
Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Fort
Mumbai 400 001

The Vice President
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

Sub: Submission of newspaper advertisement as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: NSE : HCL-INSYS

BSE (For Physical Form): 179 BSE (For Demat Form): 500179

Dear Sirs,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in both the English and Hindi edition of Business Standard w.r.t. the convening of the 35<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company on Wednesday, 22<sup>nd</sup> September, 2021 at 10:00 AM through VC/ OAVM facility, without the physical presence of the members at a common venue.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you

**For HCL Infosystems Limited** 

Komal Bathla Company Secretary & Compliance Officer

**Enclosure: As above** 

# Value funds make a comeback

Deliver average returns of 51% in 1 year; beat large- and flexi-cap schemes

Mumbai, 24 August

7 alue funds, which fell out of favour in 2017, are slowly gaining ground thanks to the broad-based rally in the equity markets. In the last one year, value funds have delivered average returns of 50.79 per cent, which is higher than what large- and flexicap schemes provided.


Value funds invest in stocks and sectors that are not in demand but have long-term growth potential and are also available on the cheap. From 2017 to March 2020, however, only growth and quality stocks were in the limelight as the Indian economy slowed and performance of value funds deteriorated.

After the sharp correction in March 2020 and equity markets bouncing back in the following months, though, value funds have started to deliver strong returns. In the last year IDFC Sterling Value Fund has provided the highest return in the category at 74.12 per cent, followed by Templeton India Value Fund, which has delivered returns of 65.80 per cent.

On the other hand, average large- and flexi-cap returns have stages of playing catch-up with aided the strong performance of been 44.19 per cent and 46 per cent, respectively, shows data from Value Research

S Naren, executive director and chief investment officer of ICICI Prudential AMC, says, "We believe a year back value was in the early





Source: Value Research: returns are for direct plans

growth and quality, which had rallied significantly till then. Also, there was investor interest in beaten down pockets such as were deep value opportunities. A

value funds over the past year."

Typically, a value fund invests in stocks that have potential for reasonable upside but are currently metals, telecom and others, which available at a discount to their fair or intrinsic value. Sorbh Gupta, combination of these factors has fund manager — equity, at

Quantum MF, says that as a value fund manager the firm always looks at companies that are below their

"After the March 2020 correction, a lot of good companies fell below their intrinsic value and we were able to buy good quality companies and marketleaders. Since then, we have seen a recovery in the economy at a more broad-based level and earnings upgrades across the spectrum, which helped value funds," added Gupta.

Fund managers who had invested in telecom, metals, pharma, and IT sectors have gained the most as equity markets recovered after the sharp fall last year. Over the past year the metal index has risen 114.75 per cent, while the IT index has risen 84.45 per cent.

However, investors need to realise that value funds underperform as markets go through different cycles. "The global experience has always been that value as a strategy will not work all the time but tends to deliver sizable returns in the long run, Until September 2020, value was out of favour which was also the case during 1988-89 and 2007-2008," added Naren.

Value funds will continue to do well if the economy recovers and there are earnings upgrades. Fund managers say that if the economy slips and market falters, it will be difficult for value funds to perform, and growth and quality stocks might make a comeback.

hereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002)

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002), (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Issued a Demand Notice dated 15.05.2021 calling upon the borrower Shri Sanjay Kumar Sio Ram Pratap & Mrs. Meena W/o Sanjay Kumar to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 4,35,193.83 (Rupees Four lakh Thirty Five Thousand One Hundred Ninety Three and paisa Eighty Three only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described begin below in exercise of the covers confered to him. Are under section 34 (4) of the said Act rescribed the public of the said to the covers confered to him.

erein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read wit

Rule 8 & 9 of the said Rule on this 23rd day of August, of the year 2021.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of EA4,35,193.83 (Rupees Four lakh Thirty Five Thousand One Hundred Ninety Three and paisa Eighty

The borrower's attention is invited to provisions of section 13(8) of the Act, in respect of timinal invaliable to them, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Residential Flat No. 49, Block-K, Fourth

Sri Ganganagar-335001 Rajasthan with in the registration District Sri Ganganagar

Bounded: On the North by: J Block, On the South by: Main Gate, Stairs & EWS Flat No. 52, On the East by: EWS Flat No. 50, On the West by: Open To Sky

Authorised Officer,

Place : Sri Ganganagar

The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Tuesday slapped a penalty of ₹1 lakh each on six individuals for violating insider trading norms in the Titan scrip. The fine was levied on Mekat George, Muniraj Radhakrishnan, Gangadhar Sudheer Kallihal, Punit Juneja, Jayraj P, and

In six separate orders, Sebi said these individuals were employees or the scrip on two separate occasions in

# REITs, InvITs to be part of Nifty indices

Real estate investment trusts (REITs) and infrastructure investment trusts (InvITs) will now be included in the Niftv indices after the National Stock Exchange revised the criteria for

"All equity shares, REITs and InvITs, that are traded at the NSE are eligible for inclusion in the Nifty indices," the stock exchange said in a note on August 23. So far, REITs and InvITs were not

specifically allowed to be part of Nifty indices.

investor participation in REITs and

The changes shall become

indices, the exchange has included Bank of Baroda, Cholamandalam Investment, Jindal Steel, PI Industries, and SAIL as part of Nifty Next 50. Abbott India, Alkem Laboratories, MRF, Petronet LNG, and United Breweries were excluded.

NSE has revised the criteria for Nifty Pharma, allowing top 20 stocks to be included in the index based on the six-month average free-float market cap. At present, the top 10 stocks based on a sixmonth average free-float market

# NRIs should apply to I-T dept for relief from double taxation

If they have lost non-resident status because of enforced

With the September 30 deadline for filing income tax returns for 2020-21 (assessment year 2021-22) fast approaching, non-resident Indians (NRIs) who were forced to overstay in India because of the pandemic are worried about whether they should file their tax return as 'resident' or 'non-resident'.

#### How is residential status determined?

According to Kapil Rana, founder and chairman of HostBooks: "The taxability of a person's income depends on his residential status in the country." That in turn depends on the number of days spent in India in the relevant financial year. A person's residential status is tested every financial year.

A person can fall into one of three categories: Resident, nonresident, and resident but not ordinarily resident (RNOR).

Rana adds, "A resident has to pay tax in India on income earned in India and outside India from any source and in

any manner. On the other hand, a non-resident or RNOR has to pay tax only on his income earned from India or through a source in India."

An individual is treated as a resident if he stays in India for 182 days or more during the previous year; or if he stays for 60 days or

more during the previous year and 365 days or more during the four years preceding the previous year.

In the case of an Indian citizen and a person of Indian origin (PIO) who visits India during the year, the period of 60 days as mentioned in the second condition above gets substituted with 182 days. Gopal Bohra, partner at NA

Particulars	ROR	RNOR	NR			
INDIAN INCOME						
Income received or deemed to be received in India	Taxable	Taxable	Taxable			
Income accruing or arising or deemed to accrue or arise in India	Taxable	Taxable	Taxable			
FOREIGN INCOME Income accruing or arising outside India from						
· Business controlled in India or profession set up in India	·Taxable	· Taxable	· Nottaxable			
· Other Foreign Income	· Taxable	<ul> <li>Nottaxable</li> </ul>	<ul> <li>Nottaxable</li> </ul>			
ROR : Resident and Ordinarily Resident; RNOR: Resident but Not Ordinarily Resident;						

Shah Associates, adds, "The 60 days in the second condition gets replaced by 120 days in the

izen earning total income in excess of ₹15 lakh (other than from foreign sources) shall be deemed to be resident in India

> tax in any country. The Income Tax a resident. Aditva

Solicitors, says, "Someone who does

**YOUR** 

MONEY

RNOR status is given to individuals who have been non-resident in India during nine out of ten financial years preceding that year, or if the individual has been in India during seven previous years preceding that year for a total

If NRI status is relinquished

"Once the NRI becomes a resident, the global income earned by him will become taxable in India. This is a concern especially for those based in countries like United Arab Emirates and Bahrain, which do not have such income tax implications. The other disadvantage includes disclosing details about ownership of stocks and properties abroad,"

### Relief from double taxation

says Chopra.

Double taxation occurs when an individual's income is taxed both in the country of residence and in the source country, "To provide relief from it, many countries have entered Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs)," says Suresh Surana, founder, RSM India.

If an NRI got stranded in India, and his physical stay exceeded the prescribed number of days, making him a resident, he may apply to the Central Board of Direct Taxation for relief from double taxation.

Says Moiz K Rafique, managing partner, Privy Legal Service LLP: "To claim relief from double taxation, he will have to obtain a Tax Residence Certificate (TRC).'

# Sebi slaps penalty on 6 for insider trading

Arjun Ramji Vishwakarma.

designated persons of Titan at the time of the violation and had transacted in financial year 2018-19. BS REPORTER

## **BS REPORTER**

Mumbai, 24 August

their inclusion.

Branch: Sri Ganganagai

This would enable wider

consequently increased volumes, liquidity and better price discoverv. REITs merit inclusion on Niftv indices, and this move will assist in widening investor participation for REITs on par with other equity options in India," said Vinod Rohira, chief executive officer. Mindspace Business Parks REIT.

effective from September 30. In its semi-annual review of cap are selected.

Branch: Sri Ganganaga

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation Ar whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice about 26.04.2021 calling upon the borrower Shri Deepak Thathai Sio Mulakh Ram to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 4,00,472.49 (Rupees Four lakh Four Hundred Seventy Two and

abias Forty fine only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 23rd day of August, of the year 2021. The borrower in particular and the public in genera are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 4,00,472.49 (Rupees Four lakh Four Hundred) Seventy Two and paisa Forty Nine only) and interest thereon The borrower's attention is invited to provisions of section 13(8) of the Act, in respect of time available

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Residential Flat No. 544, Block-Y, Third Floor, situated at Chak 3 ML, Sq. No. 6, Dream Homes, Suratgarh- Hanumangarh, Bypass, Sri Ganganagar-335001 Rajasthan with in the registration District Sri Ganganaga Bounded: on the North by: Main Gate. Lift and EWS Flat No. 541, On the South by: X Bounded: on the North by: Main Gale, Lin and Erro Hackbox Open To Sky

Authorised Officer

Authorised Officer Date: 23-08-2021 Place : Sri Ganganagar

**SERVICES PRIVATE LIMITED** (CIN - U74140MH2006PTC160551) Registered Office: 6th Floor, Techniplex II, Off. Veer Savarkar Flyover,

of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

Goregaon West, Mumbai – 400 062, Maharashtra Tel No. +91 22 61248900

**PUBLIC NOTICE** 

**AAVISHKAAR VENTURE MANAGEMENT** 

Notice is hereby given that Aavishkaar Venture Management Services Private Limited, having its registered office at 6th Floor, Techniplex II Off. Veer Savarkar Flyover, Goregaon West, Mumbai – 400 062, Maharashtra registered as an Investment Advisor under the Securities and Exchange Board of India ("Investment Advisers") Regulations, 2013 is surrendering its registration (bearing registration code INA000011945) to the Securities and Exchange Board of India for cancellation in ccordance with the provisions of the Securities and Exchange Board

For Aavishkaar Venture Management Services Private Limited Place: Mumbai Authorised Signatory ate: August 24



### **CELEBRITY FASHIONS LIMITED**

egistered office: SDF IV & C2, 3<sup>rd</sup> Main Road, MEPZ/SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045 Website: www.celebritygroup.com / CIN: L17121TN1988PLC015655

### NOTICE OF 32<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 16<sup>th</sup> September, 2021 at 02.30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the pusiness as set out in the Notice of the 32<sup>nd</sup> AGM dated 13<sup>th</sup> August, 2021 ("Notice").

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020, 05<sup>th</sup> May, 2020 and 13<sup>th</sup> January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SERI/HO/CED/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India.("Relevant

Notice convening the AGM and the Annual Report containing Board's Report. Auditor's Report, Audited financial statements for the financial year 2020-21, has een sent on 24th August, 2021, through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories as on 13<sup>th</sup> August, 2021. The requirement of sending physical copies of the Annual Report

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility (remote evoting and e-voting at the AGM). The members are also informed that:

. The cut-off date to determine eligible members to cast votes by e-voting is 09<sup>th</sup> eptember, 2021. The remote e-voting shall be open for 03 (Three) days commencing at 9.00 a.m. on 13<sup>th</sup> September 2021 and ends at 5.00 pm on 15<sup>th</sup> September, 2021. 2. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote

through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. In case, if member, cast his vote in remote e-voting as well as through e-voting at the AGM, the vote cast through remote e-voting only shall be considered. 3. Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and

olds shares as of the cut-off date i.e. 09<sup>th</sup> September, 2021 are requested to refer the e-voting instructions in the Notice. However, if already registered with CDSL for emote e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote

closed with the Annual Report which is available on the website of the Company www.celebritygroup.com and e-voting website of CDSL www.evotingindia.com and the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of 5. For any queries/grievances or issues regarding attending the AGM and remote e

voting, please refer to Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or reach to Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) of Central Depository Services (India) Limited Helpdesk:1800225533, E-mail:helpdesk.evoting @cdslindia.com or to Link Intime India Private Limited (RTA) (email nt.helpdesk@linkintime.co.in/ Toll free: 18001020878) or to the undersigned by mail at investorservices@celebritygroup.com

The Company has appointed M/s. BP & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer for the e-voting process (i.e remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manne

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of lembers and Share Transfer Books will remain closed from 10<sup>th</sup> September, 2021 to 16<sup>th</sup> September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For CELEBRITY FASHIONS LIMITED

Date: 24th August, 2021 Place: Chennai

A. Rishi Kumar **Company Secretary** 

# पंजाब नैशनल बैंक Unjab national bank ....the name you can BANK upon!

Customer Acquisition Division, Head Office Plot No. 4 Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075

ONLINE MUTUAL FUNDS AGGREGATOR AND ROBO-ADVISORY (INVESTMENT) SERVICE PROVIDER FOR PROSPECTIVE

**Deputy General Manager** 

#### FORM G (7th Revision) INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India nsolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 FOR THE ATTENTION OF THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS FOR RAIGARH CHAMPA RAIL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

KAIGAKII CHAMFA KAIL INI	KASTROCTORE FRIVATI		
RELEVANT PARTICULARS			
lame of the corporate debtor	Raigarh Champa Rail Infrasi		
Date of incorporation of corporate debtor	14th May, 2009		

Authority under which corporate debtor Registrar of Companies, Hyderabad

	is incorporated / registered	
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U60300TG2009PTC063665
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	8-2-293/82/A/431/A, Road No.22, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana 500033 IN
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	01st January 2021
7.	Dates of invitation of expression of interest	24th August 2021 (Initially published on 17th March 2021 followed by amendment on 09th April 2021, 31st May 2021, 15th June, 2021, 30th July 2021 and 5th August, 2021)
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria is set out in the detailed invitation for expression of interest available on http://www.ksk.co.in/RCRIPL.
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	These norms are set out in the detailed invitation for expression of interest available on http://www.ksk.co.in/RCRIPL.
10.	Last date for receipt of expression of interest	8th September 2021
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	18th September2021
12	Last date for submission of objections to	23rd September2021

rovisional list Date of issue of final list of prospective 3rd October2021 resolution applicants Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for

esolution plans to prospective resolutio pplicants Manner of obtaining request for resolution Will be provided by the resolution professional to plan, evaluation matrix, information memorandum and further information prospective resolution applicants who are determined to be eligible as per the process laid down in the detailed

invitation for expression of interest and in accordance with Regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.

Last date for submission of resolution 23rd October 2021 (subject to extension, if approved by plans Manner has been laid down in the Request fo Resolution Plan (RFRP) to be issued to prospective resolution applicants solution professiona

Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating any) 22nd November 2021 (subject to extension, if any)

Name and registration number of the resolution professional Mr. V Venkatachalam Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00267/ 2017 18/10/780

Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board Holling the Boa Address and email to be used for correspondence with the resolution No. 12-13-205, Street No. 2, Tarnaka, Secunderabad – 500017 Email: ip.rcripl@ibcprofessionalsolutions.com rofessional Further details available at following weblini http://www.ksk.co.in/RCRIPL urther Details are available at or with

25th August 2021 (Published on 24th August, 2021 ir website. Initially published on 17th March 2021) Date of publication of Form G V. Venkatachalan Date : 25-08-2021 Resolution Professional of Raigarh Champa

# Place : Hyderabad Rail Infrastructure Private Limited

# stay in India, this can bring them some reprieve **HOW VARIOUS TYPES OF INCOME** ARE TAXED BASED ON STATUS

case of an Indian Citizen or a PIO who resides outside India and comes on a visit to India and whose total income from Indian sources exceeds ₹15 lakh.' From AY22, an Indian cit-

if he is not liable to pay

Act, 1961, only defines who will be considered Chopra, managing partner, Victoriam Legalis-Advocates &

not qualify based on the criteria for resident is considered an NRI."

of 729 days or less.

Name of the corpo

**TENDER NOTICE** Punjab National Bank invites online bids for "CORPORATE TIE-UP WITH

INVESTORS" from eligible bidders. Interested bidders may visit our e-procurement website https://etender.pnbnet.in or https://www.pnbindia.in for downloading the detailed RFP document. The bids are required to be submitted online using digital certificates (Signing & encryption) through our e-Procurement system. Last date & time for Online

Bid Submission (for both Technical & Commercial) (hash submission) along with submission of required documents online & offline is 15.09.2021 till 1400 hrs and last date for Bid Re-encryption is 16.09.2021 till 1200 hrs. Any corrigendum/clarification in respect of above said RFP shall be released only on the above said website, which may be visited regularly.

यूको बैंक 👔 UCO BANK

Financing Branch-Banipark 0376

APPENDIX- IV [Rule- 8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the **UCO Bank**, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rules 9 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 issued demand notice dated **01-04-2021** calling upon the Borrower A/c. Shri Sajan Kumar Sharma, Mrs. Meenakshi Sharma & Mrs. Suman Lata Sharma I repay the amount mentioned in the notice being Rs. 8479372.15 (Rupees Eighty Four La Seventy Nine Thousand Three Hundred Seventy Two and Fifteen Paisa Only) as on 31-03-2021 inclusive of interest charged upto 31.03.2021 with further interest thereon together with incidental expenses, cost, charges etc., within 30 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described hereir below in exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of the said ordinance read with rule 9 of the said rules on this 19th Day of August the year 2021.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subjected to the charge of the UCO Bank for an amount of Rs. 8479372.15 (Rupees Eighty Four Lacs Seventy Nine Thousand Three Hundred Seventy Two and Fifteen Paisa Only) as on 31-03-2021 inclusive of interest charged upto 31.03.2021 with further interest thereon together with incidental expenses,

The borrower/Guarantor/Mortgagors are hereby notice to pay the sum mentioned as above within 30 days from the Date of this Notice failing which the Bank shall sale the Properties a per the provision laid down in the SARFAESI Act 2002. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the Subject Act/or any other Law in force Description of the Immovable Property

EMTD of Land and Building situated at 71/65, Paramhans Marg, Mansarovar Jaipur dmeasuring area 73.20 sq. mtr. in the name of Mrs. Suman Lata Sharma W/o Late Saty Narayan Sharma. Registered sale deed no. 2015052011869, Book No. 1, Vol No. 979 Page No. 81, Serial No. 2015052008418 registered on 04.08.2015 at subregistra Jaipur-II, **Boundaries are as under:-** North: House No. 71/66, South : Open Land, East House No. 71/86. West: Road 9.0 Mtr Wide. Authorised Officer Date: 19.08.2021 Place: Jaipur

State Bank of India, Stressed Asset Recovery Branch,
3rd Floor, Matrix Mall, Sector - 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthar 04, E-mail: sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184, Tel.: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6), 9(1)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 reac vith proviso to rule 8(6), 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised officer of State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch, Jaipur (Rajasthan) the Secured Creditor vill be sold on "As is where is". "As is what is". and "whatever there is" and "Withou Recourse" basis on 23.09.2021 from 12.00 Noon to 01.00 PM (With unlimite 10 min, each), for recovery of Rs. 4.41.81.810.00 (Rupees Four Crore Forty One Lac Eight) One Thousand Eight Hundred Ten Only) as on 31.12.2020 plus further interest, cos harges. & other expeses etc., due to the secured creditor from M/s Sonal Arabic Foods Proprietor Sh. Somender Singh Bhati S/o Sh. Bhanwar Ial Bhati Borrower(s) and Sh

deposit will be Rs. 09.50 Lac (Rupees Nine Lac Fifty Thousand Only DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Bhanwar Lal Bhati S/o Sh. Madan Lal Bhati Guarantor(s).

ndustrial Land Situated at Khasra No. 622, Vill. Baga, Soorsagar, Jodhpur (Raj.) Standing the name of Sh. Bhanwar Lal Bhati S/o Sh. Madan Lal Bhati. **Total Measuring-1644.75** Sq. yards. Bounded: On the East by-Land of Ram Singh, On the West by-Land of Gya ngh, **On the North by-** Land of Ganpat Ji, **On the South by-** Road 80' F Other Encumbrance (if any): Not known. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State

The reserve price will be Rs. 95 Lac (Rupees Ninety Five Lac Only) and the earnest money

Bank of India, the Secured Creditor's website <a href="https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others">https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others</a> & <a href="https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others">https://sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co.in/web/sbi.co Date: 24.08.2021 Place : Jaipur State Bank of India

# **HCL INFOSYSTEMS LIMITED**

CIN: L72200DL1986PLC023955

Regd. Office: 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019 Tel: + 91-120-2520977, 2526518/519, Fax: +91 120 2523791 Email: cosec@hcl.com. Website: www.hclinfosystems.in

NOTICE TO THE MEMBERS ON INFORMATION REGARDING 35™ ANNUAL GENERAL MEETING

n view of the continuing covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" vide its circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020; April 13 2020; May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively ("MCA Circulars") permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the members at a commor venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR)"] read with SEBI Circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 respectively ("SEBI Circulars"); and MCA circulars, the Board of Directors of the Company has decided to convene the 35th AGM of the Company on Wednesday, 22th September, 2021 at 10:00 AM through VC/ OAVM facility

to transact the businesses that will be set out in the AGM Notice. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice and Annua Report to the Members have been dispensed with vide MCA circulars & SEBI circulars To comply with the provisions of SEBI and MCA circulars, the notice of 35th AGM and Annual Report of the Company for Financial Year ended March 31, 2021 along with the ogin details for joining the 35th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting details will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants (DPs), Members can join and participate in the 35th AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM, casting their vote at AGM an casting vote through remote e-voting will be provided in the Notice to the 35" AGM Members participating through VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose o reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The notice of 35th AGM and the Annua Report shall also be available on the Company's website www.hclinfosystems.in and stock exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the RTAi.e. www.alankit.com.

The Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility to all its member to cast their votes on all the resolutions set out in the notice of 35th AGM. Detailed nstructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the notice of 35th AGM. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesse as set out in the AGM Notice through e-voting.

Members holding Shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice o 35th AGM, Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility by sending a request to Alankit Assignments Limited. Registrar and Share Transfe Agent of the Company at info@alankit.com or contact Company Secretary of the Company at <a href="mailto:com">company at <a href="mailto:com">com</a><a support for registering their e-mail addresses.

and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility, as per the process Any person, who acquire shares and become member of the Company after the date o lectronic dispatch of Notice of 35th AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 15th September, 2021 may obtain the Login ID and password by sending a

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the

Company and is in compliance with the applicable circulars of the Ministry of Corporate

equest at info@alankit.com/cosec@hcl.com.

Date: 24.08.2021

Members holding Shares in demat form whose e-mail addresses are not registered are

equested to register their e-mail address for receipt of Notice of 35th AGM, Annual Repor

Affairs and Securities and Exchange Board of India. For and on behalf of **HCL Infosystems Limited** Komal Bathla Place: Noida Company Secretary and Compliance Officer

## पंजाब नैशनल बैंक 🔘 punjabnational bank

ग्राहक अर्जन प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्लॉट सं ४ सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075 निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक "भावी निवेशकों के लिए ऑनलाइन म्यूचुअल फण्ड समूहक और रोबो-एडवाइजरी (निवेश) सेवा प्रदाता के साथ कॉर्पोरेट टाई-अप करने" के लिए पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोली आमंत्रित करता है। इच्छुक बोलीदाता विस्तृत आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी ई-खरीद वेबसाइट https://etender.pnbnet.in या https://www.pnbindia.in पर जा सकते हैं।

बोलियों को हमारी ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्रों (साइनिंग और एन्क्रिप्शन) का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किया जाना अपेक्षित है। अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा करने के साथ ऑनलाइन बोली जमा करने (तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों के लिए) (हैश प्रस्तुति) की अंतिम तिथि और समय 15.09.2021 को 1400 बजे तक है तथा बोली के पूनः एन्क्रिप्शन के लिए अंतिम तिथि 16.09.2021 को 1200 बजे तक है । उपरोक्त आरएफपी के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र / स्पष्टीकरण, केवल उक्त वेबसाइट पर जारी किया जाएगा जिसे नियमित रूप से देखा जा सकता है।

उप-महाप्रबंधक

#### यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड CIN: L51909DL1981PLC012621 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 3-ए, पहली मंजिल, बीएलके-x, लोहा मंडी, नरैना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110028

कॉरपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. बी-103, द्वितीय मंजिल, साऊथ सिटी-ा, गुरुग्राम-122001, हरियाणा वेबसाइटः www.euro aexportsItd.com ई-मेलः info@euro शेयरधारकों के लिए सूचना

तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के आह्वान के प्रसारित एजीएम की सूचना में निर्धारि व्यवसायिक पहलओं पर चर्चा करने के लिए वीडियो काँफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजअद साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार 4 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 01.00 बजे आयोजित होगी।

जारी कोविद्ध-19 महामारी के महेनजर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधार सर्कुलर नं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, साधारण सर्कुलर नं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैत 2020, साधारण सर्कुलर नं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, साधारण सर्कुलर नं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, साधारण सर्कुलर नं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, साधारण सर्कुलर नं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा सर्कुलर नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सर्कलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांव 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "सेबी सर्कुलर") के तहत कंपनियों को साधारण स्थल प सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर वीसी अथवा अन्य ऑडियो-विजअल साधनों वीसी/ओएवीए के जरिए एजीएम संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। इन एमसीए सर्कुलरों तथा कंपर्न अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताए विनियमन, 2015 के अनुपालन के तहत कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के जिए आयोजित होगी।

ऊपरोक्त एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेद वित्त वर्ष 2020-21 सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उन सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनके ईमेल क पता कंपनी/डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत है। सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचन तथा वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2020-21 कंपनी की वेबसाइट <u>www.euroasia exportsItd.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएससी की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी, ओएवीएम के जरिए बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गिनती की जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसा कृते यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 24.08.2021

श्रुति चौधरी कंपनी सचिव

अनु. क्र.

1. अमित

2. गरिमा गर्ग

1. संदिप कमार

2. बबिता रानी

उर्फ तमन्ना शर्मा

2. अंकुर तारा

1. अमित द्विवेदी

1. सनिल खराना

3. शितल खुराना

2. अर्चना भटनागर

1. अमन वर्मा

1. शिव दास

2. किरण देवी

3. ।-लक्ष्मी टान्सपोर्ट कं

1. गौरव उर्फ गौरव

2. ओम वती

4. वंदना यादव

2. मीनु देवी

1. मनोज बुधलानी

2. शिखा बधलानी

3. गगन सक्सेना

उर्फ गौरव यादव

3. सौरभ उर्फ सौरभ यादव

1. सतिश कुमार चौहान

2. निम्मी

2. समिता अमित दिवेदी

#### परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार उमाकांत तिवारी और पिंकी उमाकांत तिवारी को 24.10.2019 की सूचना मे वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HHLGRG00199394 की राशि रू.9,41,215/- (रुपए नौँ लाख इकतालीस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) और 24.10.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 19.08.2021 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा <mark>राशी रू.9,41,215/- (रुपए नौ लाख इकतालीस हजार</mark> दो सौ पंद्रह मात्र) 24.10.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स **लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण ओएके-2/16 तीसरी मंजिल पर प्रस्तावित हाउसिंग स्किम 'शिप्रा सनिसटी-॥' में, वैभव खंड, विंडसोर, इंदिरापुरम, तहसील और जिला गाज़ियाबाद-201001 उत्तरप्रदेश और निम्ननुसार परिबद्ध है:

: टाइटल डीड के अनमार पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार दक्षिण : टाइटल डीड के अनसार उत्तर : टाइटल डीड के अनसार

देनांक :19.08.202<sup>.</sup> :गाज़ियाबाद

प्राधिकत अधिकारी

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

### एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड CIN: L72200DL1986PLC023955 पंजी. कार्यालय : 806, सिद्धार्थ 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019

Tel: + 91-120-2520977, 2526518/519, Fax: +91 120 2523791 Email: cosec@hcl.com. Website: www.hclinfosystems.in

#### 35वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में जानकारी पर सदस्यों को सूचना

कोविड—19 महामारी के चलते. निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने परिपत्र न 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रम्**शः दिनांक 8 अप्रैल, 2020,** 18 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र") ने कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो काफ़्रेसिंग (1"वीसी")/अन्य ओडियो तिरियो प्रान्ति के अनुमति के जिल्ला के ज की अनुमति दी है। कंपनीज अधिनियम,,2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके का अनुनारि च है। केपनाओं आवानचन, है। अंतर्गत बने नियम, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और फ्रटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सेबी (एलओडीआर') सेबी परिपत्र नं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 क्रमश दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के निदेश मंडल ने एजीएम की सूचना में वर्णित किए जाने वाले व्यापार का लेन—देन करने के लिए ने जिस ने आएवीएम सुविधा के माध्यम से **बुधवार, 22 सितंबर, 2021 को सुबह 10.00 बजे** कंपनी की 35वीं एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के तहत सूचना और सदस्यों को र्वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। सेबी और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, 35वीं एजीएम की सूचना और ईं–वीटिंग विवरण सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगिन विवरण के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) या उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) रजिस्टर हैं। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम से जड़ व भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने, एजीएम में अपने वोट डालने और रिमोट ई-वॉटिंग द्वारा वोट डालने के लिए निर्देश 35वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पुर करने के उद्देश्य ो की जाएगी। 35वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hclinfosystems.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com आरटीए की वेबसाइट www.alankit.com पर भी उपलब्ध है।

अपने सुवस्ता है। कंपनी ने 35वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सुवस्यों को रिमोट ई-वाटिंग सुविधा और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 35वीं एजीएम की सूचना में दिए गुए हैं। सदस्यों को ई—वोटिंग के द्वारा एजीएम सूचना में वर्णित अनुसार ग्वेंबसाय पर दूर बैठे अपने वोट डालने का अवसर दिया जाएगा।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई—मेल पते रजिस्टर कंपनी या आरटीए व साथ रजिस्टर नहीं हैं, वे info@alankit.com पर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड को अनुरोध भेजकर वीसी / ओएवीए सुविधा के द्वारा एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगिन विवरण और 35वीं एजीएम की सूचना गर्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए अपने ई-मेल रजिस्टर कर सकते हैं या अपने ई-मेल पते रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, फोलियो नं., शेयर प्रमाणपत्रों (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व—सत्यापित स्कैनड प्रति, देकर cosec@hcl.com

पर कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं । गैर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई—मेल रजिस्टर नहीं हैं, से अपने डीपी की सलाह अनुसार प्रक्रिया से वीसी/ओवीएएम सुविधा के द्वारा एजीएम से जुड़ाने के लॉगिन विवरण और 35वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए अपने ईू–मेल रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर किए गए ईू–मेल का उपयोग भावी संचार के लिए किया जा सकता है। 35वीं एजीएम की सूचना के इलैक्ट्रानिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और शेयर ग्रहण करने वाले और कट—ऑफ तिथि अर्थात बधवार 15 सितंबर, 2021 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति info@alankit.com/cosec@hcl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ और निगमित मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

स्थान : नोएडा

दिनांक : 24.08.2021

एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड के लिए व उन्हीं की ओर से

कोमल बाटला कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी

## टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 1 १वें गंजिल, टॉक्र ए, येगीनमुला बिजनेस पार्क, गणपतचाव करम मार्ग, लीक्षर परेल, मुम्बई-4000 13 गाखा कार्यालय : बी–36, प्रथम और द्वितीय तल, लाजपत नगर भाग–2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर , नई दिल्ली–11002

शुद्धिपत्र दिनांक 24–08–2021 को बिजनेस स्टैंडर्ड-अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशि विज्ञापन के संदर्भ में अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (प्रतिभूति हिर प्रवासन के तरन ने जेपेल संस्थाया था बिक्रों हुए बिक्रों सूर्यना (सार्गारा किर [प्रवर्तन], नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत) श्री मनीष कुमार (कर्जदार) औं श्रीमती मिताली (सह–कर्जदार) से संबंधित क्र.सं. 4 पर ऋण खाता संख्य 10326102 स<sup>े</sup> संबंधित है जिसमें अचल संपत्ति का विवरण ''सभी आवासी मंजिल पर स्थित, देवीका स्कायपर्स, फैज—I, प्लॉट सं, 1148, राज नगर एक्स नएच–58, गाजियाबाद, उ.प्र.–201017, मापक क्षेत्र 1144.00 वर्ग फुट (सुप ररिया) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और श्री विनय मिश्रा (कर्जदार) और श्रीमती वि प्न कुमार दास (सह–कर्जदार) क्र.सं. ५ पर ऋण खाता सं. ९५५६०२६ में भी धरोह राशि जमा (ईएमडी) राशि को रुपये २,७९,९३६ / – के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। निजाने में हुई इन त्रटियों पर ईमानदारी से अफसोस है।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी प्रति, टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपुमेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : पी-14 45/90, पी-ब्लॉक, प्रथम तल,

RELIGARE LOANS

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट-IV नियम 8(1)] जबिक अधोहस्ताक्षरी ने **रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटे**ड (आरएडीएफसीएल) जो राष्ट्रीय आवास बैंक (पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली) के

**साथ पंजीकृत आवांस वित्त कंपनी है**. के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय परिसंपत्तियों वे प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (इसके 'आरएडीएफसीएल'' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतरगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.04.2021 को हरिश कुमार पुत्र धर्मवीर, राजबाला पत्नी धर्मवीर और धर्मबीर सिंह पुत्र क्रचारु सिंह सभी निवासी मकान सं. 1427, शिव मंदिर के पास नंगाला एनक्लेव भाग-02 फरीदाबाद, हरियाणा–121005 इसके अलावा : एम् आर स्टील्स एण्ड इंजीनियरिंग प्लॉट सं 430. चौहान कॉम्पलेक्स, सांई हॉस्पिटल के सामने फरीदाबाद, हरियाणा-121001 को एक मांग सूचना जारी कर सूचना में उल्लेखित राशि **रुपये 17,40,062.13/- का भुगतान दिनांक 2** 1.04.2021 से ब्याज के साथ उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर करने को कहा

'उधारकर्ता राशि चकाने में असफल रहा है. एतद द्वारा उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व–सामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के सहितत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस **अगस्**त के 20वें दिन, 2021 पर निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व—सामान्य को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है वि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **रुपये** 17,40,062.13/— की राशि के लिए और **दिनांक 21.04.2021** को अन्य शुल्क उस पर ब्याज ''आरएडीएफसीएल'' के प्रभार के अधीन होगा।

'उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप—अनुभाग (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किय जाता है यदि उधारकर्ता नीलामी बिक्री सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पहले किसी भी समय ''आरएडीएफसीएल'' के बकाए को एक साथ भुगतान करता है, तो प्रत्याभूत परिसंपतियों को 'आरएडीएफसीएल'' द्वारा बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और प्रत्याभत परिसंपत्तियों वे हस्तांतरण या बिक्री के लिए ''आरडीएफसीएल'' द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

संपत्ति की अनुसूची

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानुन) की धारा 13(2) के अंतर्गत सचना

तारीख (सी)

31.03.2021

31.03.2021

27.05.2021

24.06.2021

31.03.2021

31.03.2021

20.07.2021

31.03.2021

23.06.2021

गिरवी संपत्ति का विवरण

(बी)

युनिट नं. 1007, दसवीं मंजिल, टॉवर सन 3,

मिगसव अल्टीमो प्लॉट नं. जीएच-03

सेक्टर-ऑमिक्रॉन-3, नोएडा-201301

टॉवर-एसएलवी, प्रोजेक्ट श्री राधा एक्व

गार्डन्स, प्लॉट नं. जीएच-05 में स्थित,

सेक्टर-16 बी. ग्रेटर नोएडा (पश्चिम).

गौतम बुध्द नगर -201308, उत्तर प्रदेश

सेक्टर-24, रोहिणी, नई दिल्ली -110085

फ्लैट नं. ए-301, टॉवर-ए, तिसरी मंजिल,

अपार्टमेन्ट नं. सी–1401, चौदहवीं मंजिल,

वसुंधरा, गाज़ियाँबाद, उत्तर प्रदेश -201008

टॉवर-सारस्वत, टाईप-1, महागन मंत्रा-2.

प्लॉट नं. जीएच 01, ए सेक्टर-10, ग्रेटर

साथ, सामने का बाएं हाथ की तरफ,

प्लॉट नं. 88. सेक्टर-॥ बी. वैशाली

गाजियाबाद - 201010. उत्तर प्रदेश.

नगाटा को-ऑप ग्रुप हाउसिंग सोसायटी

फ्लैट नं. सी1 – 5004, पाँचवी मंजिल,

अपार्टमेन्ट नं. 2319, तेईसवीं मंजिल,

प्लॉट नं. जीएच 01 बी. सेक्टर-10.

दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है ।

ग्रेटर नोएडा. नोएडा. उत्तर प्रदेश -201301

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे

उदाार लेने वाले(लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेनेवाले(लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के

भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अधिनयम की धारा 13(2)

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के

भीतर अधतन ब्याज, लागते, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक

. निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और

प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति का

सरफेसी अधिनयमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से

विधी टॉवर, महागुन मंत्रा-1,

जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

टॉवर-सी 1, कृष्णा हाउसिंग अफॉरडेबल

स्किम, सेक्टर-14, सोहना, गुड़गाँव-122001

तहसिल मानेसर, जिला गुरुग्राम

गरुग्राम - 122001, हरियाणा

नोएडा (पश्चिम), नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

फ्लैट नं. एस 2. दसरी मंजिल रुफ राईटस के

फ्लैट नं. 203, दुसरी मंजिल, ब्लॉक सी-3,

ब्लॉक बी, वसुंधरा ग्रैंड, सेक्टर -15,

फ्लैट नं.1138, ग्यारहवीं मंजिल,

क्लेमेन्ट सिटी, प्लॉट नं, जीएच-6.

गाज़ियाँबाद-201001, उत्तर प्रदेश

क्रॉसिंग रिपब्लिक, दुंधहेरा,

प्लॉट नं. 269-270. पीकेटी-18.

युनिट नं. 203, दुसरी मंजिल,

संपत्ति धारक म्युनिसिपल सं. 2435, प्लॉट सं. 39 पर, मकान सं. 1427, मापक 100 वर्ग गज खुसरा सं. 24/7/1 के बाहुर, मौर्या गाजीपुर में स्थित, नांगला एनक्लेव भाग–2, फरीदाबाद, हरियाणा—12 100 1 का संपूर्ण व सर्वांगीण

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 20/08/2021 मेसर्स रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

कर्जदाता (ओं) का नाम

कर्ज खाता क्रं. HHLREW00346158

कर्ज खाता क्रं. HHLNOD00277648

कर्ज खाता क्रं. HHLRHN00426722

कर्ज खाना कं HHLNOI00442832

कर्ज खाता क्रं. HHLNOI00452925

कर्ज खाता क्रं. HHLNOI00246043

कर्ज खाता कं HHLNOI00415885

कर्ज खाता क्रं. HHLGRG00304661

कर्ज खाता क्रं. HHLGRG00290129

कर्ज खाता कं HHLDCP00256423

क्षेत्रीय कार्यालयः दिल्ली प्लॉट नं. 20 एवं 21/1, करोल बाग मेट्रो स्टेशन के निकट, मेट्रो पिलर नं. 98 के विपरीत, पूसा रोड, करोल बाग, SOUTH Ban नई दिल्ली-110 005, दूरभाष-011-45128661 मेलः ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभृतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सुचना

एतद्द्वारा आम तौर पर जनसाधारण तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटीदाता को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड, दिल्ली मॉडल टाउन शाखा के पास गिरवी पर रखी गई थी. दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा भृतल पर आधा अविभाजित हिस्से को छोड़कर तथा छत के अधिकार पर दिनांक 01/10/2019 को भौतिक कब्जा कर लिया गया था तथा भूतल पर आधा अविभाजित हिस्सा तथा छत के अधिकार पर दिनांक 25/10/2018 को प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया था, जिसे (1) श्री विकास गुप्ता पिता जय भगवान दास, स्वत्वाधिकारी श्री माधव इंडरनीज आवास एच 1292 डीएसआईडीसी नरेला नई टिल्ली-110040 और एक पता टी-202, गली नं, 1, शिवाजी नगर, नरेला, दिल्ली-110040 तथा (2) श्रीमती विद्या गप्ता पति श्री भगवान दास आवास टी-202, गली नं. 1, शिवाजी नगर, नरेला, दिल्ली-110040 से दि साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड, दिल्ली मॉडल टाउन शाखा के प्रति दिनांक 23/08/ 2021 को बकाया रकम रु. 3,69,21,304.06 (रुपये तीन करोड़ उनहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ चार एवं पैसे छह मात्र) की वसूली के लिए दिनांक 30/09/2021 को "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 2,41,00,000.00 (रुपये दो करोड़ इकतालीस लाख मात्र) तथा बयाना राशि जमा रु. 24,10,000.00 (रुपये चौबीस लाख दस हजार मात्र) होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरणः श्रीमती विद्या गुप्ता के नाम पर विद्युत, जल एवं सीवरेज कनेक्शनं तथा सामान्य सीढ़ी के साथ सम्पत्ति नं. टी-202, गली नं. 1, शिवाजी नगर, नरेला, दिल्ली के सम्पूर्ण द्वितीय तथा छत अधिकार के साथ तृतीय मंजिल तथा भूतल पर आधा हिरसा का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, जिसका और अधिक विवरण उपहार विलेख पंजीयन सं. 3718 के अधीन उल्लेखित है, एसआरओ VI बी नई दिल्ली में दिनांक 21/10/2014 को पंजीकत चौहदीः उत्तर में गली, पूर्व में गली, दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति तथा पश्चिम में अन्य की सम्पत्ति। अधिकृत अधिकारी को दिनांक 17/08/2017 से 01/11/2019 तक सम्पत्ति के संबंध में ईसी/खोज रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है तथा उसमें कोई ऋणभार नहीं है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया साऊथ इंडियन बैंक लि. की वेबसाइव www.southindianbank.com पर प्रदत्त लिंक देखें।

दिनांक: 24 08 2021

(रू.) (डी)

(रूपये चालीस लाख तिरासी हजार

पैंतालीस पैसा मात्र) 30.04.2021

(रूपये चौंतीस लाख तेईस हजार

चौरानवे और चार पैसा मात्र)

₹5. 40.83.619.45

छह सौ उन्नीस और

₹ 34,23,094.40

₹ 53.39.784.87

(रूपये तिरपन लाख

उनतालीस हजार सात सौ

चौरासी और सतासी पैसा मात्र)

चौसठ हजार नौ सौ निन्यानवे और

अड़सठ पैसा मात्र) 08.06.2021

(रूपये उनतालीस लाख पंचहत्तर

हजार तीस और दो पैसा मात्र)

(रूपये चौंतीस लाख छिहत्तर

तिहत्तर पैसा मात्र) 18.05.2021

हजार सात सौ तेईस और

(रूपये चौंतीस लाख तीस

हजार आठ सौ पंचानवे और

चौसठ पैसा मात्र) 30.04.2021

(रूपये बावन लाख तैंतीस हजार

(रूपये चौदह लाख छप्पन हजार

नौ सौ बारह और पंचानवे पैसा मात्र

(रूपये बयालीस लाख दो हजार

नौ सौ नब्बे और छियासी पैसा मात्र)

30.04.2021

27.05.2021

₹. 44,64,999.68

₹ 39.75.030.02

₹ 34,76,723.73

₹. 34,30,895.64

₹ . 52,33,749.78

मात्र) 20.07.2021

₹. 14,56,912.95

₹ . 42,02,990.86

10.06.2021

24.06.2021

(रूपये चवालीस लाख

दि साऊथ इंडियन बैंक लि. स्थानः नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी आवेदन (सीएए) सं. 30/एनडी/2021 के साथ संबंधित

कंपनी याचिका (सीएए) सं. 61/एनडी/2021

निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में गोविंद सुगर मिल्स लिमिटेड

... याचिकाकर्त्ता कंपनी/अंतरणकर्त्ता कंपनी जआरी ग्लोबल लिमिटेड

... गैर-याचिकाकर्त्ता कंपनी/अंतरिती कंपनी

उनके शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं याचिका की सूचना

गोविंद सुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा समामेलन की योजना की अनुमति के लिए कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अधीन शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 को एक याचिका दायर की गई थी तथा उक्त याचिका पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार, 9 सितम्बर, 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने वाले कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति, अपना अथवा अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ अपना नाम एवं पता का उल्लेख कर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास उक्त याचिका पर सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जाए। अगर कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहते हैं, तो विरोध के कारणों अथवा अपने हलफनामे की एक प्रतिलिपि उस सुचना के साथ अवश्यक भेजें। अधोहरताक्षरी द्वारा याचिका की प्रतिलिपि मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाएगा। रोल पर अधिवक्ता दिनांक 25 अगस्त, 2021

[महेश अग्रवाल] [राजीव कुमार] याचिकाकर्त्ता कंपनी के लिए सलाहकार

पताः अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स, 34, बाबर लेन, पहली मंजिल,

बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110 001

ईमेलः <u>rajeev@aglaw.in</u> दूरभाषः +91-11-23354330/23738122

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड पंजीकत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502. टॉवर-ए. पे **सर्किल कार्यालय** : कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, दूसरी मंजिल, 3बी, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-11000:

अधिकत अधिकारी

माँग सचना

प्रतिभत हित (प्रवर्तन) नियम. 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण तथा पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उन्हें जारी की गयी सम्बन्धित मांग सचना(ओं) में उल्लिखित राशियों को अदा करने को कहते हुए उन्हें मांग सुचनाएं जारी की हैं जो नीचे दी गयी हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस प्रकाशन के माध्यम से एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को इस सचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सीजीसीएल को नीचे उल्लिखित राशियों तथा भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे उल्लिखित तिथियों से भावी प्रयोज्य ब्याज जो कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों के साथ पठित ऋण अनुबन्ध के तहत देय हैं, अदा करने के लिए कहते हुए मांग सुचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भगतान की प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित आस्तियों को क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा सीजीसीएल के पास बंधक रखा गया है :

क्र. सं.	कर्जदार( रों )/जमानती( यों ) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)
	(ऋण खाता सं. LNCGCGGDTL0000008929 दिल्ली शाखा) परवीन कुमार (कर्जदार) पूनम, रमेश चन्द (सह-कर्जदार)	04-08-2021 रु. 21,31,718/-	मकान नं. 138, क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज, खेवट/खाता सं. 281/281 रेक्ट सं. 7//12/34/138, इन्द्रा कॉलोनी नं. 1, ग्राम बिन्दापुर, गुरुग्राम हरियाणा का सम्पूर्ण भाग तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : रास्ता 1: फीट चौड़ा, उत्तर : प्लॉट नं. 139 दक्षिण : प्लॉट नं. 137
2.	(ऋण खाता सं. LNMEOKH000017789 दिल्ली शाखा) राहुल कुमार (कर्जदार) राज बाला (सह-कर्जदार)	03-08-2021 रु. 20,44,892/-	मकान नं. 01, क्षेत्रफल माप 70 वर्ग गज, मुस्तैल सं. 31, उक्कला नं 19,20,21,22, मुस्तैल नं. 41, किला नं. 1, 2, 8/2, 9, 10, 11 12, 13/1, 18/2, 19, 20, 22/2, 23/1, वाका मौजा ऊचा गाँ आदर्श नगर, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा तथा पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर सड़क (15 फीट), दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति।
3.	(ऋण खाता सं. LNMEFRD000016347 फरीदाबाद शाखा) अरुण कुमार (कर्जदार) भंबर सिंह, चन्द्रा देवी, चुन्नी लाल (सह-कर्जदार)	16-08-2021 ₹5. 20,46,679/-	भूमि माप 593 वर्ग गज, खेवट सं. 972 में से, खतौनी नं. 1181 मुस्तैल नं. 53, किला नं. 1(1-17), मुस्तैल नं. 54, किला नं. 5/3(4- 9), 6/1(1-7) का सम्पूर्ण भाग, मौजा दौबा, तहसील एवं जिल फरीदाबा, हरियाणा में स्थित, तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनं रचना। सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम सङ्क, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: प्लॉट का भाग।
4.	(ऋण खाता सं. LNCGCOKDTL0000008432 फरीदाबाद शाखा) एड्डिविटर स्कूल सॉल्यूशन्स (कर्जदार) अनिल कुमार, गीतांजलि, राजपूर एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी (सह-कर्जदार)	16-08-2021 रु. 53,27,578/-	सम्पत्ति सं. 144, क्षेत्रफल माप 162.20 वर्ग गज, सेक्टर 52 (भाग) फरीदाबाद, हरियाणा का सम्पूर्ण भाग, तथा उस पर वर्तमान एवं भार्व दोनों रचना।
5.	(ऋण खाता सं. LNMEDEL000012394 दिल्ली शाखा) हेमन्त कुमार (कर्जदार) माया देवी, दीपक कुमार, वन्दना, अमित कुमार, सीमा लोधवाल (सह-कर्जदार)	16-08-2021 रु. 30,27,888/-	दुकान नं. 15, भूतल, क्षेत्रफल माप 12.92 वर्ग मीटर, सीएससी नं. 3 पॉकेट-5, फेज-1, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली-110085 का सम्पूर्ण भाग तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना।
	(ऋण खाता सं. LNMEDEL000011631 आजादपुर शाखा) राजीव कुमार (कर्जदार) विजय, रेखआ, किशन लाल मलिक, नितन राजपूत (सह-कर्जदार)	16-08-2021 रु. 23,60,522/-	मकान नं. 80, नया नं. 140, क्षेत्रफल माप 83 वर्ग गज, खसरा नं 42, ओल्ड लाल डोरा, ग्राम भरीला, दिल्ली-110033 का सम्पूर्ण भाग तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना।
	(ऋण खाता सं. LNMEAZD000046831 आजादपुर शाखा) विनीत साड्रीज प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) विनीत रिबन्स, बिख्यी चन्द निर्मल कुमार, विनीत छजेर, निर्मल कुमार छजेर, गुलाब चन्द छजेर, सरोज छजेर, विमला देवी छजेर, मैसर्स विनीत साड्रीज (सह-कर्जदार)	16-08-2021 表. 1,13,96,293/-	सम्पत्ति सं. 5318 से 5325 तथा 5377 से 5378, द्वितीय तल छत वे अधिकार सहित, क्षेत्रफल माप 222.22 वर्ग गज, वार्ड सं. XIV क सम्पूर्ण भाग, बस्ती हरफूल सिंह, सदर थाना रोड, दिल्ली में स्थित, तथ उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना।
8.	(ऋण खाता सं. LNCGCKARTL0000004336 करमपुरा शाखा) महेन्दर पाल अरोड़ा (कर्जदार) तनुज अरोड़ा, नालन्दा केबल इंडस्ट्रीज (सह-कर्जदार)	16-08-2021 रु. 49,89,990/-	इंडस्ट्रियल शीट नं. 421-ए, क्षेत्रफल माप 68 वर्ग गज (प्रथम तल के छोड़कर), खसरा नं. 356/313 मिन का सम्पूर्ण भाग, फ्रेंड्स कॉलॉर्न इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम झिलमिल ताहिरपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित। तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना। सीमाएं निम्नलिखित हैं: पूर्वे: अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : गली, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति।
	(ऋण खाता सं. LNMEGNR000034410 गांधी नगर शाखा) सुषमा एन (कर्जदार) दलशेर सिंह, मैसर्स फैशन फुटवियर (सह-कर्जदार)	16-08-2021 रु. 49,89,990/-	फ्लैट सं. 103, प्रथम तथा द्वितीय तल छत के अधिकार रहित, ब्लॉक डी, पॉकेट-6, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली का सम्पूर्ण भाग। तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना।
	(ऋण खाता सं. LNCGCJPGTL0000004164 झण्डेवालान-पीजी शाखा) वीडीआर ग्लोबल (कर्जवर) स्मेश कुमार मारवाह, दीपाली मारवाह, पुजा (सह-कर्जवर)	16-08-2021 रु. 85,41,415/-	सम्पत्ति सं. 2, क्षेत्रफल माप 400 वर्ग गज, एनएच−5, फरीदाबाद हरियाणा का सम्पूर्ण भाग। तथा उस पर वर्तमान एवं भावी दोनों रचना

यदि उक्त कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार सीजीसीएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध लागतों तथा परिणामों के लिए कथित कर्जदारों के पूर्ण जोखिम पर कार्यवाही करेगा। कथित कर्जदारों को अधिनियम के उपर्यक्त आस्तियों को बिक्री, पटटे या अन्य माध्यम से सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करता है तो वह कथित अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार कैद तथा/अथवा जर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्थान : दिल्ली / रा.रा.क्षे. तिथि : 25.08.2021

ह./- (अधिकृत प्राधिकारी), कृते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

**OSBI** 

कॉर्पोरेट सेन्टर, स्ट्रेस्ड ॲसेट रिझोल्यूशन ग्रुप, 21वीं मंजिल, ई विंग, मेकर टावर, कफ परेड, मुंबई - 400 005

#### ई-निलामी द्वारा बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों का विक्रय

मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'

स्थान: नोएडा / गौतम बुध्द नगर / दिल्ली / गाज़ियाबाद / गुरूग्राम

भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय आस्तियों के विक्रय के लिए ई–निलामी द्वारा बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से बोलियाँ आमंत्रित करता है. ऐसी वित्तीय आस्तियों, जिन्हें बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदर्शित किया जाना है, के क्रय हेतु बोली लगाने में रुचि रखने वाले बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई बैंक के साथ एक अप्रकटीकरण अनुबंध के निष्पादन के पश्चात इस बोली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, यदि वह पहले से निष्पादित नहीं है. बैंक के साथ अप्रकटीकरण अनुबंध के निष्पादन एवं अन्य पूछताछ, यदि कोई हो, के लिए ऐसे इच्छुक बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/ एफआई ई-मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क कर सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से अपनी अनर्जव आस्तियों (एनपीए), जिनमें (01) वित्तीय आस्ति शामिल है और कुल बकाय रु. 13.05 करोड़ है, के प्रस्तावित विक्रय के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है. इच्छुक प्रत्याशित बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे एक ''अभिरुचि की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से ई-निलामी में भाग लेने की अपनी इच्छा से हमें अवगत करवाएँ. अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi विज़िट करें और यहाँ दी गई लिंक in the News>Auction Notice>ARC AND **DRT** पर क्लिक करें.

जारीकत **स्थान**: मुंबई उप महाप्रबंधक (एआरसी) दिनांक: 25.08.2021

📦 թո**ь** Housing

प्राधिकृत अधिकारी

कृते इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.

शाखा पता : एससीओ-323-324, प्रथम तल, सेक्टर-35बी, चण्डीगढ़-160035, दूरभाष : 0172-2601406. Finance Limited शाखा पता : कार्यालय नं. 23-24-25, प्रथम तल, सिटी स्क्वैयर बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, जालंधर-144001, दूरभाष : 0181-2233421 यथा तिथि संशोधित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत सचना हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके पश्चात 'पीएनबीएचएफएल' सन्दर्भित) ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी की थी। कथित मांग सूचना हमारे अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आप सभी निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों को निर्गत की गयी थी क्योंकि आपके खाते को किस्तों/ब्याज के गैर-भुगतान के कारण

भारतीय रिजर्व बैंक/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इसकी विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गयी चूक हैं। आगे, कारणों से हमें विश्वास है कि आप मांग सूचना की सर्विस की अनदेखी कर रहे हैं और इसलिए इस मांग सूचना का प्रकाशन करना पड़ा जो कथित अधिनियम की धारा 13(2)के तहत अपेक्षित भी है। आपको एतद्वारा अद्यत

ब्याज एवं प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि का इस मांग सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर पीएनबीएचएफएल कर्जदारों तथा जमानतियों की प्रतिभूत आस्तियों के कब्जा लेने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही/उपाय करेगा। भापका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) की और आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमन्त्रण

सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा निविदा के माध्यम से प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना के केवल प्रकाशन की तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों तथा पीएनबी एचएफएल द्वारा किये गये व्ययों सहित सम्पूर्ण बकाया राशि टेंडर अंत

<b>&amp;</b> वनीता पराशर पत्नी श्री (3-10), 211(2-0), 212(2-0), 213(4-0), 214(2-0), 215(4-2), 215(4-2), 217(2-0), 218(2-	क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार तथा सह- कर्जदार का नाम∕पता	जमानती⁄यों का नाम तथा पता	बंधक सम्पत्ति( याँ )	माँग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
		0216/265430 & HOU/CHD/ 0616/294101. B.O.	विपिन पराशर, श्रीमती वनीता पराशर पत्नी श्री विपिन पराशर तथा अनुभव पराशर पुत्र श्री विपिन पराशर निवासी मकान नं. 114, बाबू लाल चौक-मुनीरका, ग्राम-जेएनयू दक्षिण-		एसएएस नगर, पंजाब-140603. (कंवर्ड एरिया 736.5 वर्ग फीट, खसरा नं. 208(2-10), 209(1-9), 210 (3-10), 211(2-0), 212(2-0), 213(4-0), 214(2-0), 216(4-2), 216(4-0), 217(2-0), 218(2-0), 219(2-0), 220(1-12), 221(2-8) कित्ते 14, खेवट/खतौनी नं. 2/2 के माध्यम से जिसमें कथित तल का हिस्सा 0 बीचा 0 बिस्या 18 बिस्यासी अर्थात कुल भूमि 35 बीचा 11 बिस्या का 18/14220 हिस्सा (1/3 हिस्सा 44.56 वर्ग गज = 133.68 वर्ग गज निर्मित करता है) नकल जमाबन्दी वर्ष 2011-12 के अनुसार हवस्तर सं. 54. 2. फ्लैट नं. 43, प्रथम तल, ड्रीम होम्ज, ग्राम किशनपुरा, एम.सी. एवं उपतहसील-जिरकपुर, तहसील-डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर, पंजाब-140603. (कंवर्ड एरिया 736.5 वर्ग फीट, खसरा नं. 208(2-10), 209(1-9), 210(3-10), 211(2-0), 212(2-0), 213(4-0), 214(2-0), 215(4-2), 216(4-0), 217(2-0), 218(2-0), 219(2-0), 220(1-12), 221(2-8) कित्ते 14, खेवर/खतौनी नं. 2/2 के माध्यम से जिसमें कथित तल का हिस्सा 0 बीचा 0 बिस्ता 18 बिस्वासी अर्थात कुल भूमि 35 बीचा 11 बिस्वा का 18/14220 हिस्सा (1/3 हिस्सा 44.56 वर्ग गज = 133.68 वर्ग गज निर्मित करता है) नकल जमाबन्दी वर्ष 2011-12 के अनुसार	13.08.2021	रु. 53,73,085.61/- (रुपये तिरेपन लाख तिहत्तर हजार पिचासी एवं इकसठ पैसे